CIVIL SERVICES PRELIMINARY EXAM

VAJIRAO & REDDY INSTITUTE India's Top Potential Training Institute for IAS

INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE

34

oklet No: 73

Test Booklet Code: 723 Test Booklet No		
1 Ex.	D	
2 Ex.	D	
3 Ex.	B The concept of Single Citizenship in Inconly recognized as citizens of India and states, is a concept borrowed from the Econtrast, countries like the USA have a citizenship (national and state).	not of their respective British Constitution. In
4 Ex.	С	
5 Ex.	С	
6 Ex.	B 1. Lok Ayukta is not a constitutional bo Indian Constitution. It is a statutory boolegislations. 2. Lok Ayukta is responsible for investi corruption against public officials at the	ly established by state gating cases of
7 Ex.	A The Right to Equality (Articles 14 to prohibition of discrimination on var	
8 Ex.	A	
9 Ex.	С	
10 Ex.	С	
11 Ex.	Α	
12 Ex.	D The purpose of Directive Principles establish social and economic demo India grow a as welfare state.	
13 Ex.	A They are located in Ukraine.	
14 Ex.	 The Right to Freedom (Articles 19 freedom of speech and expression. The Right to Freedom also encompreside and settle in any part of the terms. 	passes the right to
15 Ex.	Α	
16 Ex.	*	
17 Ex.	В	
18 Ex.	A	

Training Institute for IAS				
34992	Total Ques: 100			
19	С			
Ex.	• Article 24 specifically prohibits the employment of			
	children below the age of 14 years in hazardous			
	occupations.			
	• Article 23 prohibits trafficking in human beings and begar (forced labor).			
20	A			
Ex.				
21	D			
Ex.				
22	C			
Ex.	The Attorney General of India has the right to participate			
	in the proceedings of both Houses of Parliament, but			
	without the right to vote.			
23	В			
Ex.	6			
24 Ex.	С			
	A			
25 Ex.	The Prime Minister of India presides over the meetings			
	of the Council of Ministers.			
26	A			
Ex.	Article 75 of the Indian Constitution deals with the appointment of the Prime Minister and other Ministers.			
27	C			
Ex.				
28	A			
Ex.				
29	A			
Ex.	D.			
30 Ex.	B White Paper is an official document issued by the Government			
EX.	of India or by its Ministry which explains the Government			
	policies on a particular subject and allows the Government to			
	collect feedback before a bill is prepared.			
31	C			
Ex.				
32	Α			
Ex.	• Veto Power refers to the President's power to withhold or refuse to give assent to bills (D).			
	• Pardoning Power is the President's power to grant pardons,			
	reprieves, respites, or remissions of punishment (A).			
	 Diplomatic Power involves the President representing India i international forums and affairs (B). 			
	• Military Power indicates that the President is the supreme			
	commander of the Indian Armed Forces (C).			
22	D			
33 Ex.	During a National Emergency, the fundamental right that			
	is automatically suspended is the "Right to Life and			
	Personal Liberty" (Article 21).			

The Constitution of India grants right against exploitation to children, women and tribals, but the word 'Dalit' is not

mentioned in the Indian Constitution.

36

Ex.

37 ^A

Ex. • The Directive Principle of Uniform Civil Code is mentioned in Article 44.

- The provision for just and humane conditions of work and maternity relief is part of Article 39.
- The promotion of education and economic interests of weaker sections is found in Article 46.
- The organization of village panchayats is mandated in Article 40.

38

Ex.

39 B

Ex.

40 [[]

Ex. The Parliamentary system of government, where the executive is responsible to the legislature, is a feature borrowed from the British Constitution. The other options represent features borrowed from other countries: Directive Principles from the Irish Constitution, the Federal System with a strong Centre from Canada, and Fundamental Rights from the US Constitution.

41 E

Ex.

42 A

Ex.

43 A

Ex.

44

Ex.

45 ^E

46

Ex. The Preamble mentions Justice, Liberty, Equality, and Fraternity as its ideals but does not specifically mention the promotion of world peace and security. It focuses on the fundamental values and the political philosophy of the Indian Constitution.

47 C

Ex. The President of India does not have the power to make laws. This power is vested in the Parliament of India. The President's roles include appointing the Prime Minister, declaring war or peace (under the advice of the Council of Ministers), and granting pardons.

48

Ex.

49

Ex. The Prime Minister of India can be a member of either the Lok Sabha (House of the People) or the Rajya Sabha (Council of States). However, they must be a member of one of the two houses of Parliament.

50

Ex. The International Renewable Energy Agency (IRENA) released its World Energy Transitions: Outlook 2023 report, highlighting the need for a more aggressive approach to transition towards renewable energy sources.

51 ⁽

Ex.

VAJIRAO INSTIT

52 B

Ex.

53 C

Ex. The Attorney General of India is the highest law officer of the Government of India and serves as the chief legal advisor to the government.

54 ^A

Ex. • The President is elected by an electoral college consisting of the elected members of both houses of Parliament and the elected members of the Legislative Assemblies of States and Union territories.

• The President must be qualified to be a member of the Lok Sabha, which includes being a citizen of India, at least 35 years old, etc.

• The President can be impeached for violation of the Constitution.

55 B

Ex. The President does not have the power to dissolve State Legislative Assemblies. This power lies with the Governor of the respective state.

56 A

Ex. Article 352 of the Indian Constitution deals with the proclamation of a National Emergency.

57 ^A

Ex. Statements 1, 2, and 3 are correct. A Constitution Amendment Bill can be introduced in either House, needs to be passed by a special majority, and the President must give assent.

58 ^A

INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE

Ex. Statements 1, 2, and 3 are correct. An Ordinary Bill can be introduced in either House, and for its passage, a simple majority is required in both Houses. The President has the options mentioned regarding assent.

59

Ex. 1. Lokpal is indeed a statutory body established under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

2. The primary responsibility of the Lokpal is to investigate allegations of corruption against public officials, including the Prime Minister and Members of Parliament.

60

Ex.

61 B

Ex.

62 Ex.

• The Vice-President is elected by an electoral college consisting of the members of both houses of Parliament.

• The Vice-President serves as the ex-officio Chairman of the Raiva Sabha.

• The Vice-President can be impeached for violation of the Constitution.

- 63 A
- **Ex.** Article 61 of the Indian Constitution deals with the procedure for the impeachment of the President. It states that the President can be impeached for the violation of the Constitution.
- 64 E
- **Ex.** Non-performance of duties. The grounds for the impeachment of a High Court judge are 'proved misbehaviour' or 'incapacity', as per the Indian Constitution.
- 65
- **Ex.** Article 26 provides this right to every religious denomination.
 - The state is allowed to regulate non-religious activities associated with religious practices.
- 66 B
- Ex.
- **67** D
- ______
- 68 Ex.
- ____
- 69 Ex.
- 70 A
- Ex.
- 71
- Ex. The President of India is elected by an Electoral College consisting of the elected members of both houses of Parliament, the elected members of the Legislative Assemblies of States, and the elected members of the legislative assemblies of Union Territories
- **72** C
- Ex.
- 73 E
- Ex.
- **Ex.** Calcutta, Bombay, Madras. The first High Courts in India were established in the three Presidency towns of Calcutta, Bombay, and Madras in 1862.
- **75** '
- Ex.
- 76 ⁽
- Cultural and Educational Rights, unlike some other Fundamental Rights, are specifically guaranteed to citizens only.
 - Articles 29 and 30 protect the rights of minorities to establish and administer educational institutions.
- 77 E
- **Ex.** The President of India. The Chief Justice of a High Court is appointed by the President of India in consultation with the Chief Justice of India and the Governor of the State.
- 78
- **Ex.** In case of a dispute regarding a parliamentary election, the final authority to decide the matter lies with the Supreme Court of India.
- 79 E
- **Ex.** The Bill allows regulation of activities such as nucleus breeding centres and hatcheries.

- 80 A
- **Ex.** Stapled visa can be torn off or detached at will.
- 81 A
- **Ex.** The Directive Principles of State Policy, which are guidelines for the central and state governments of India to be kept in mind while framing laws and policies, are borrowed from the Constitution of Ireland.
- 82 B
- Ex.
- 83 C
- Ex.
- **84** B
- Ex.
- 85 D
- Ex.
- 86 A
- Ex.
- 87 A
- Ex.
- 88 A
- Ex.
- **89** B
- Ex.
- 90 E
- **Ex.** The Council of Ministers is collectively responsible to the President of India.
 - The Cabinet is the highest decision-making body within the Council of Ministers.
- 91

INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VAJIRAO INSTITUT

- Ex. To vote in public elections is not listed as a Fundamental Duty. While voting is a constitutional right in India, it is not a duty enlisted in the Constitution.
- 92 A
- Ex. The Preamble begins with the words "We the people of India", signifying the democratic principle that power is ultimately vested in the hands of the people of India. It reflects the concept of popular sovereignty as the source of all constitutional authority.
- 93
- **Ex.** Article 51A of the Indian Constitution specifies the Fundamental Duties of citizens. These duties serve as a constant reminder to every citizen that while enjoying their rights, they should also be conscious of duties they owe to their country.
- 94 D
- Ex.
- 95 E
- **Ex.** The Fundamental Duties were added by the 42nd Amendmen Act, 1976.
 - Initially, there were 10 Fundamental Duties listed. Later, the 86th Amendment Act, 2002 added one more, making it 11.
 - Fundamental Duties are applicable only to Indian citizens.
- 96
- **Ex.** 1. The Chief Election Commissioner of India is indeed appointed by the President of India.
 - 2. The Election Commission conducts elections for the Lok Sabha, Rajya Sabha, and State Legislative Assemblies.

	4
97 ^C	
Ex.	
98 ^D Ex.	[건]
99 A	
Ex.	2
100 B Ex. It refers to Biological clock cycle.	AS SA
Ex. It refers to Biological clock cycle.	
	>
	5
	TE CONTRACTOR OF THE CONTRACTO
	N Company
	SA O
	2 3
	[2]
	Its
	Z O
	RAG
	T/V
	N I
	2
	<u>E</u>
	IRA
	B
	DE L
	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
	o l
	Name of the state
	\$
	15
	E
	O
	> =
	E
	AS S
	[3]
	TE
	E
	INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VA
	1=1

П

Date: 03/02/2024

Duration: 2 hr

Ex.

CIVIL SERVICES PRELIMINARY EXAM

VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

35

Α 36 Ex.

द्वारा दिलाई जाती है।

Test Booklet No: Test Booklet Code: 723 D VAJIRAO INSTIT Ex. D 2 Fx. 3 Ex. भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा, जहाँ नागरिकों को केवल भारत के नागरिक के रूप में मान्यता दी जाती है और उनके INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE संबंधित राज्यों के नहीं, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। इसके विपरीत, यूएसए जैसे देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है (राष्ट्रीय और राज्य)। С Ex. С 5 Ex. 6 Ex. 7 Ex. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18) विभिन्न आधारों पर भेदभाव के निषेध को शामिल करता है। 8 Ex. 9 Ex. 10 Ex. 11 Ex. 12 Ex. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है-सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। Α 13 Ex. वे यूक्रेन में स्थित हैं। 14 Ex. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। स्वतंत्रता का अधिकार यह भी शामिल करता है कि नागरिक किसी भी भारतीय क्षेत्र में बसने और रहने के लिए स्वतंत्र हैं। 15 Ex. 16 Ex. В 17 Ex. 18

734992 Total Ques: 100 19 Ex. अनुच्छेद 24 विशेष रूप से खतरनाक व्यवसायों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बेगार (बलात श्रम) पर प्रतिबंध लगाता है। 20 Ex. 21 Ex. 22 भारतीय अटॉर्नी जनरल को पर्लियामेंट के दोनों सदनों की प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता। В 23 Ex. С 24 Ex. 25 भारत में मंत्रिपरिषद की बैठकों का आयोजन प्रधान मंत्री द्वारा किया जाता है। 26 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों की नियक्ति का विचार किया गया है। 27 Ex. 28 Ex. 29 Ex. 30 भारत में सरकार द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र के रूप में जारी किया जाता है। С 31 Ex. 32 Ex. 33 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वह मौलिक अधिकार जो स्वतंत्र रूप में निलंबित किया जाता है, वह 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार' (अनुच्छेद 21) होता है। 34 संविधान में बच्चों, स्त्रियों एव जनजातियों के शोषण के विरुद्ध Ex. अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है।

भारतीय उपराष्ट्रपति के पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति

37 Ex. 38 Ex. 39 Ex. 40 संसदीय प्रणाली की सरकार, जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ब्रिटिश संविधान से ली गई एक विशेषता है। अन्य विकल्प अन्य देशों से लिए गए थेरू आयरलैंड संविधान से नीति निर्देशक तत्व, कनाडा से मजबूत केंद्र के साथ फेडरल सिस्टम, और अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार। В 41 Ex. 42 Ex. 43 Ex. 44 Ex В 45 Ex. 46 Ex. प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और भ्रातृत्व के आदर्शों का उल्लेख है, लेकिन इसमें विश्व शांति और सुरक्षा का संवर्धन विशेष रूप से नहीं कहा गया है। यह भारतीय संविधान के मौलिक मूल्यों और राजनीतिक दर्शन पर केंद्रित है। 47 Ex. भारत के राष्ट्रपति के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं होती है। यह शक्ति भारत की संसद में निहित है। राष्ट्रपति की भूमिकाओं में प्रधानमंत्री की नियक्ति, युद्ध या शांति की घोषणा (मंत्रिपरिषद की सलाह पर), और क्षमादान देना शामिल हैं। 48 Ex. 49 भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा (जनता का सदन) या राज्यसभा (राज्यों का परिषद) का सदस्य हो सकता है। हालांकि, उन्हें संसद के दोनों सदनों में से एक का सदस्य होना आवश्यक है। 50 अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) ने अपनी Ex. विश्व ऊर्जा परिवर्तनरू आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण के लिए अधिक आक्रामक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। 51 С Ex. 52 Ex. कथन 2 और 3 सही हैं। समिति का प्राथमिक कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्ट, खाते और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच 53 भारतीय अटॉर्नी जनरल सरकार के सबसे उच्च कानूनी Ex. अधिकारी होते हैं और सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में काम करते हैं।

55 INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE राष्ट्रपति के पास राज्य विधानसभाओं को भंग करने की शक्ति नहीं है। यह शक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास होती 56 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा करने का विचार किया गया है। 57 Ex. 58 Ex. 59 Ex. 60 Ex. 61 Ex. 62 Ex. 63 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की Ex. प्रक्रिया से संबंधित है। यह कहता है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। D 64 कर्तव्यों का न करना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के Ex. महाभियोग के आधार 'सिद्ध दुर्व्यवहार' या 'अक्षमता' हैं, जैसा कि भारतीय संविधान में बताया गया है। 65 अनुच्छेद २६ प्रत्येक धार्मिक समुदाय को यह अधिकार प्रदान Ex. करता है। राज्य धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी गैर-धार्मिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का अधिकार रखता है। 66 Ex. D 67 Ex. 68 Ex. D 69 Ex. 70 Ex. 71 भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, राज्यों की विधायी सभाओं के चुने हुए सदस्य, और संघ राज्यक्षेत्रों की विधायी सभाओं के चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं। С 72 Ex. 73 Ex.

54

Ex.

74 E

Ex. कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। भारत में पहले उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे, और मद्रास के तीन प्रेसीडेंसी शहरों में स्थापित किए गए थे।

75

Ex.

76 ⁽

Ex. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अन्य मौलिक अधिकारों की तरह, विशेष रूप से नागरिकों को ही गारंटी दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने के अधिकार की रक्षा करते हैं।

77

Ex.

78 E

Ex. संसदीय चुनाव के मामले में यदि विवाद होता है, तो इस मामले का आखिरकार निर्णय भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पास होता है।

79 E

Ex. विधेयक न्यूक्लियस प्रजनन केंद्रों और हैचरी जैसी गतिविधियों के विनियमन की अनुमति देता है।

80 A

Ex. स्टेपल्ड वीजा को इच्छानुसार फाड़ा या अलग किया जा सकता है।

81 A

Ex. राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भारतीय केंद्र और राज्य सरकारों के लिए कानून और नीतियां बनाते समय ध्यान में रखे जाने वाले दिशा–निर्देश हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।

82 B

Ex.

83 C

Ex. 84 B

84 ^B

85 D

Ex.

86 A

Ex.

87 A

Ex.

88 [/] Ex.

89 E

Ex.

90 B

Ex. मंत्रिपरिषद भारतीय राष्ट्रपति के प्रति संयुक्त जिम्मेदार है। कैबिनेट मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का मंत्रिमंडल सबसे उच्च निर्णय निर्माण में होता है।

91 E

Ex. सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना मौलिक कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। जबिक भारत में मतदान एक संवैधानिक अधिकार है, यह संविधान में सूचीबद्ध कर्तव्य नहीं है। 92 [/]

Ex. प्रस्तावना "हम भारत के लोग" के शब्दों के साथ शुरू होती है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांत को दर्शाती है कि सत्ता अंततः भारत के लोगों के हाथों में निहित है। यह लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा को दर्शाता है जो सभी संवैधानिक अधिकार का स्रोत है।

93 E

Ex. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। ये कर्तव्य हर नागरिक को यह याद दिलाते हैं कि जब वे अपने अधिकारों का आनंद उठा रहे हों, तो उन्हें अपने देश के प्रति जो कर्तव्य हैं, उसके प्रति भी सचेत रहना चाहिए।

94 D

Ex.

95 E

Ex. मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। प्रारंभ में, 10 मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध थे। बाद में, 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 ने एक और जोड़ा, जिससे उनकी संख्य 11 हो गई। मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं।

96

Ex. 1. भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्त करने का काम वाकई भारत के राष्ट्रपति करते हैं।

2. चुनाव आयोग लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए चुनाव आयोजित करता है।

97 C

Ex.

98 D

Ex.

INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE VAJIRAO INSTITUTE

99 ^A

Ex. 100 B

Ex. यह जैविक घडी चक्र को संदर्भित करता है।